



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18—जनवरी 24, 2014 (पौष 28, 1935)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18—JANUARY 24, 2014 (PAUSA 28, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विदेश मंत्रालय

कार्यालय, प्रोतोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

सं. डीIII/460/सीएफ-47/2013--भारत के राष्ट्रपति, मुंबई में वियतनाम समाजवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री बुऊ सन थुई की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री बुऊ सन थुई का कौंसली क्षेत्राधिकार मुम्बई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोतोकॉल उप प्रमुख (एफ)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

सं. 13017/35/2013-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं गुजरात एवं पंजाब सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री संदीप कुमार गर्ग, भारतीय पुलिस सेवा (पी.बी.:12) से विवाह होने के आधार पर सुश्री सुरभी मलिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जी.जे.:12) को गुजरात संवर्ग से पंजाब संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/19/2013-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उड़ीसा सरकार और कर्नाटक सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री डी. वी. स्वामी, भारतीय पुलिस सेवा (ओ.आर.:01) की उड़ीसा संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति को वैयक्तिक आधार पर तीन वर्षों के लिए अनुमोदित करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

सं. 8/1/2009-डीआरटी--ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नै के पीठासीन अधिकारी श्री ई. जे. आर. डेनियल 5 वर्ष की कार्य-अवधि पूरी होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ देंगे।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2014

सं. 8/1/2009-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री के. रवीन्द्र बाबु, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, चेन्नै को अपने कार्यों के अलावा 1 जनवरी, 2014 से ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नै के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2013

सं. ए-38011/4/2013-मा.सं.II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री राजपाल, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31.10.2013 (अपराह्न) को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं. ए-12011/5/2009-मा.सं.II--राष्ट्रपति, श्री सहदेव भारद्वाज, सहायक निदेशक (जहाजरानी) को पदोन्नति पर 6,600/- रुपए ग्रेड पे के साथ पीबी-3, रुपए 15,600--39,100/- में नियमित आधार पर सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2013

सं. ए-38011/8/2013-मा.सं.II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री लक्ष्मण दास, निजी सचिव दिनांक 30.11.2013 को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं. ए-38011/6/2013-मा.सं.II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री एच. एस. साह, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30.11.2013 को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सं. ए-38011/9/2013-मा.सं.II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री वीरेन्द्र कुमार, अनुसंधान अधिकारी दिनांक 30.11.2013 को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2013

सं. ए-18011/126/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री यू. विश्वनाथम, उप सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.11.2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2013

सं. ए-22011/11/2013-स्था.(खण्ड)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.ज्ञा. सं. 6/2/2013-सीएस-I (एस)-III के अनुसार अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची 2011 में श्री रघुनाथ सिंह, नियमित सहायक के नाम को शामिल करने के फलस्वरूप उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 29.11.2013 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री रघुनाथ सिंह की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम तथा किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आदेश के अधीन होगी :--

- (i) श्री राजीव कुमार आर और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 4135/2012 एमए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीना और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ. सं. 4082/2012 तथा एमए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरासी और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ. सं. 4141/2012
- (iv) श्री सौरांशु सिन्हा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यू पी (सी) सं. 2735/2013

एल. हौकिप, उप सचिव

दिनांक 18 दिसम्बर 2013

सं. ए-22011/12/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अंशुमान डे, आईएफएस (एमटी:97), निदेशक की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में दिनांक 02.12.2013 से आगे तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् 02.03.2014 तक बढ़ाते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

सं. ए-19013/01/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हैं।

के. जय कुमार, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

सं. ए-19013/01/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, प्रो. समीर के. ब्रह्मचारी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अधिवर्षिता की आयु पूरी

होने के पश्चात प्रदत्त दो वर्ष की सेवा विस्तार अवधि के समाप्त होने पर 31.12.2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

सं. ए. 12025/215/2009-सीएचएस 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हसीना बेगम पी. पी. को दिनांक 30 मई, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. हसीना बेगम को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2013

सं. 43-01/2012-बागवानी-IV--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा डा. लल्लन राम को 8,900/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान पर, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय बागवानी संस्थान, मेदजीफेमा, नागालैंड में दिनांक 04.11.2013 पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एन. सनातोम्बा सिंह, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

सं. ए 19011/2/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री प्रभुदयाल मीना, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश:80) को 26 नवम्बर, 2013 से विशेष सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय नियुक्त करते हैं।

चरणजीत सिंह, निदेशक (भू.सु.)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जनवरी 2014

सं. ए-22012/3/2006-स्था.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 2011 की चयन सूची में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के का.ज्ञा. सं० 5/13/2012-सीएस. आई (यू) द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार शर्मा को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 23 सितम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (सीएसएस सं. 6930) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2013

सं. ई(ओ)III-2013/आरएन/26--भारतीय रेल लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री अशोक कुमार चौधरी (जन्म तिथि : 23.03.1960 डीआईटीएस: 16.12.1985) का आरबीएनएल में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 30.07.2013 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एच. के. जग्गी, सचिव

(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2013

सं. ए-32011/5/2011-एमए--राष्ट्रपति, श्री बी. आर. शेखर और एस. के. सिन्हा को 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए के वेतनमान में प्रिंसीपल अधिकारी {इंजीनियरिंग-सह-संयुक्त निदेशक (तकनीकी)} के पद पर महानिदेशालय पोत परिवहन के अंतर्गत क्रमशः मरकेन्टाइल मेरीन विभाग, चेन्नै और कोचीन के कार्यालय में 01.10.2013 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के. सी. दुबे, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

सं. ए-12025/1/2013-ई-I(बी)--राष्ट्रपति, डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजीव कुमार चक्रवर्ती, नियमित ग्रेड-सी आशुलिपिक को सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2009, 2010 एवं 2011 उत्तीर्ण कर लेने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.08.2013 के का.ज्ञा.सं. 4/6/2013-सीएस-II(ए) के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उनका नामांकन किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 9,300--34,800/- रुपए के पे बेन्ड-2 + 4,800/- रुपए के ग्रेड पे में 27.09.2013 (अपराह्न) से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची वर्ष 2010 में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2013

सं. ए-32013/1/2013-ई-I(बी)--राष्ट्रपति, दूरदर्शन महानिदेशालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर तैनात श्री पी. सी. खुलबे को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.08.2013 के का. ज्ञा. सं. 3/6/2012-सीएस-II(ए) के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की चयन सूची वर्ष, 2012 में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 15,600--39,100/- रुपए के पे बेन्ड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड पे में 01.10.2013 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 5th December 2013

No. DIII/460/CF-47/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Vu Son Thuy as Consul General of the Socialist Republic of Vietnam in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Vu Son Thuy comprises the territory of Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th December 2013

No. 13017/35/2013-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Gujarat and Punjab, the Central Govt. hereby transfers Ms Surabhi Malik, IAS (GJ : 12) from Gujarat cadre to Punjab cadre on the ground of marriage to Mr. Sandeep Kumar Garg, IPS (PB : 12).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 13017/19/2013-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Orissa and the Government of Karnataka, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri D. V. Swamy, IAS (OR : 01) from Orissa cadre to Karnataka cadre, for a period of three years on personal grounds.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 31st December 2013

No. 8/1/2009-DRT—Shri E. J. R. Daniel, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Chennai, will demit the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 31st December, 2013 (A. N.) on completion of his tenure of 5 years.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 1st January 2014

No. 8/1/2009-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri K. Raveendra Babu,

Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Chennai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Chennai with effect from 01.01.2014, in addition to his own charge.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 7th November 2013

No. A-38011/4/2013-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Rajpal, Section Officer stands retired from the service of the Government of India with effect from 31.10.2013 (AN).

YASHPAL ARORA, Under Secy.

No. A-12011/5/2009-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Sahdev Bhardwaj, Assistant Director (Shipping) to the post of Assistant Commissioner (Shipping) on promotion basis in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 31.10.2013 on regular basis.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

The 3rd December 2013

No. A-38011/8/2013-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Lakshman Dass, Private Secretary stands retired from the service of the Government of India with effect from 30.11.2013.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

No. A-38011/6/2013-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri H. S. Sah, Section Officer stands retired from the service of the Government of India with effect from 30.11.2013.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

No. A-38011/9/2013-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Virendra Kumar, Research Officer stands retired from the service of the Government of India with effect from 30.11.2013.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 28th November 2013

No. A-18011/126/2011-Estt.—The President is pleased to permit Shri U. Viswanadham, Deputy Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to retire from

Government service with effect from the afternoon of 30.11.2013 on attaining the age of superannuation.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

The 13th December 2013

No. A-22011/11/2013-Estt.(Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Raghunath Singh, a regular Assistant to the grade of Section Officer in the Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on regular basis w.e.f. 29.11.2013 (FN) pursuant to inclusion of his name in Select List 2011 in terms of Department of Personnel and Training's O. M. No. 6/2/2013-CS.I(S)-III dated 25.09.2013.

2. The appointment of Shri Raghunath Singh to the grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the following Court Cases and any other order by any competent court in any of the connected matters:—

- (i) OA No. 4135/2012 MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R. & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iv) WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha & Ors. Vs. UOI and Ors. in the High Court of Delhi.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

The 18th December 2013

No. A-22011/12/2008-Estt.—The President is pleased to extend the central deputation tenure of Shri Angshuman Dey, IFS (MT: 97), Director in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of three months beyond 02.12.2013 till 02.03.2014.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 31st December 2013

No. A-19013/01/2007-Estt.—The President is pleased to assign the additional charge of the post of Secretary, Department of Scientific & Industrial Research to Shri T. Ramasami, Secretary, Department of Science & Technology with immediate effect for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy.

New Delhi-110016, the 31st December 2013

No. A-19013/01/2007-Estt.—On the expiry of the period of extension of two years beyond the age of superannuation with effect from 01.01.2011, the President is pleased to retire Prof. Samir K. Brahmachari, Secretary, Department of Scientific and Industrial Research & Director General, Council of Scientific and Industrial Research from Government Service, with effect from 31.12.2013 (AN).

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 16th December 2013

No. A-12025/215/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Haseena Beegum P. P. in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30th May, 2013 until further orders. Dr. Haseena Beegum is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai. She will be on probation for a period of two years from the date of her appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th November 2013

No. 43-01/2012-Hort.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lallan Ram, as Director in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,900/- in the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland under the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, on deputation basis with effect from the forenoon of 04.11.2013 for a period of not exceeding 5 years or until further orders, whichever is earlier.

N. SANATOMBA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 13th December 2013

No. A-19011/2/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Prabhudayal Meena, IAS (MP: 80) as Special Secretary in the Department of Land Resource, Ministry of Rural Development w.e.f. from 26th November, 2013.

CHARANJIT SINGH, Director (LR)

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 3rd January 2014

No. A-22012/3/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of the name of Shri Pradeep Kumar Sharma in the Select List for

the year 2011 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide DoP&T Office Memorandum No. 5/13/2012-CS.I(U) dated 23rd September, 2013, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Sharma as Under Secretary of CSS (CSL No. 6930) in the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 23rd September, 2013 (FN).

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st November 2013

No. E(O)III-2013/RN/26—Consequent upon his permanent absorption in RVNL, Shri Ashok Kumar Choudhary, SAG/IRAS (DOB-23.03.1960, DITS-16.12.1985) has resigned from Railway service with effect from 30.07.2013.

H. K. JAGGI, Secy./
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 14th November 2013

No. A-32011/5/2011-MA—The President is pleased to appoint S/Shri B. R. Shekhar and S. K. Sinha to the post of Principal Officer (Engineering)-cum-Joint Director General (Technical) in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 10,000/- in the office of Mercantile Marine Department, Chennai and Cochin respectively under the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 01.10.2013 (FN) until further orders.

K. C. DUBEY, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 1st October 2013

No. A-12025/1/2013-E.I(B)—Consequent upon his qualifying the Combined Section Officers/Stenographers (Grade 'B'/Grade I) Limited Departmental Competitive Examination 2009, 2010 & 2011 and his nomination to the Ministry of Road Transport & Highways vide DOP&T's OM No. 4/6/2013-CS.II(A) dated 22.08.2013, the President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar Chakraborty, a regular Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Posts as Private Secretary of CSSS for the Select List year 2010, in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 27.09.2013 (AN) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 24th October 2013

No. A-32013/1/2013-E.I(B)—Consequent on inclusion of his name in the Select List Year 2012 of Principal Private Secretary of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/6/2012-CS.II(A) dated 30.08.2013, the President is pleased to appoint Shri P. C. Khulbe, Private Secretary, posted in DG: Doordarshan as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 01.10.2013 (FN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in